



Qualified Health Plan

एक नज़र में

कौन योग्य है?

वे व्यक्ति जो:

- न्यूयॉर्क राज्य के निवासी हैं
- वैध रूप से अमेरिका में मौजूद हैं
- Medicaid, आवश्यक योजना या Child Health Plus के लिए योग्य नहीं हैं

NY State of Health लागू संघीय नागरिक अधिकारों के कानून और राज्य कानूनों के अनुपालन के तहत जाति, रंग, राष्ट्रीय मूल, संप्रदाय/धर्म, लिंग, आयु, वैवाहिक/पारिवारिक स्थिति, गिरफ्तारी का रिकॉर्ड, आपराधिक दोष, लिंग की पहचान, यौन अभिविन्यास, आनुवंशिक विशेषताओं, सैन्य स्थिति, घरेलू हिंसा पीड़ित की स्थिति और/या प्रतिशोध के आधार पर भेदभाव नहीं करता है।

क्या शामिल है?

- निःशुल्क निवारक देखभाल
- भर्ती किए गए रोगी की देखभाल
- बाह्यरोगी हेतु सेवाएँ
- मातृत्व और नवजात शिशु की देखभाल
- आपातकालीन सेवाएँ
- लैब और इमेजिंग
- निर्धारित औषधि
- पुनर्वास और निवासनीय सेवाएँ
- मानसिक स्वास्थ्य और मादक पदार्थों के सेवन की समस्या से संबंधित सेवाएँ
- तंदुरुस्ती और चिरकालिक रोग प्रबंधन सेवाएँ
- बच्चों के लिए दंत चिकित्सा और आँख संबंधी सेवाएँ

कुछ योजनाओं द्वारा व्यस्क दंत चिकित्सा और अन्य लाभ भी शामिल हो सकते हैं।

हमसे संपर्क करें:

nystateofhealth.ny.gov | 1-855-355-5777 या TTY 1-800-662-1220

किसी योग्य स्वास्थ्य योजना (QUALIFIED HEALTH PLAN, QHP) की लागत कितनी है?

मासिक प्रीमियम: आपके द्वारा हर महीने भुगतान की जाने वाली राशि आपके द्वारा चुने गए प्लान पर निर्भर करेगी। अधिकांश लोग टैक्स जमा करने योग्य हैं जो आपकी मासिक लागत को कम करते हैं। टैक्स की गणना आपकी आय, घर के आकार और जहां आप रहते हैं, के आधार पर की जाती है।

लागत साझाकरण: लागत साझाकरण वह राशि है, जिसे आप कोई स्वास्थ्य सेवा प्राप्त करने पर भुगतान करते हैं। कुछ लोग अपनी आय के आधार पर इन लागतों का भुगतान करने के हेतु मदद प्राप्त करने योग्य होते हैं। चार स्तरों पर पेश की जाने वाली मानक योजनाओं के लिए QHP लागत साझाकरण स्तर के उदाहरण नीचे दिए गए हैं। अन्य योजनाएँ भिन्न लागत साझाकरण और कवर की गई अतिरिक्त सेवाओं के साथ उपलब्ध हैं।

| स्वास्थ्य देखभाल सेवाओं के लिए लागत साझाकरण | प्लेटिनम | गोल्ड | सिल्वर | कांस्य |
|--|----------|----------|----------|----------|
| वार्षिक कटौती योग्य | \$0 | \$600 | \$1,300 | \$4,700 |
| निवारक देखभाल | निःशुल्क | निःशुल्क | निःशुल्क | निःशुल्क |
| प्राथमिक देखभाल चिकित्सक से मुलाकात* | \$15 | \$25 | \$30 | \$50 |
| विशेषज्ञ से मुलाकात* | \$35 | \$40 | \$50 | \$75 |
| प्रति भर्ती अस्पताल में रहने वाले रोगी | \$500 | \$1,000 | \$1,500 | \$1,500 |
| व्यवहार से संबंधित स्वास्थ्य के लिए बाहरी रोगी की मुलाकात | \$15 | \$25 | \$30 | \$50 |
| प्रत्येक भर्ती पर व्यवहार से संबंधित स्वास्थ्य समस्या के लिए भर्ती रोगी से मुलाकात | \$500 | \$1,000 | \$1,500 | \$1,500 |
| आपातकालीन कक्ष | \$100 | \$150 | \$300 | \$500 |
| तत्काल देखभाल | \$55 | \$60 | \$70 | \$75 |
| शारीरिक उपचार, बोली चिकित्सा, व्यावसायिक चिकित्सा | \$25 | \$30 | \$30 | \$50 |

*सभी 2022 Standard Bronze (मानक कांस्य) प्लान्स कटौती योग्य (उपभोक्ता को सह-भुगतान का भुगतान करने की आवश्यकता है) राशि को पूरा करने से पहले प्राथमिक देखभाल प्रदाताओं या विशेषज्ञों को कुल तीन दौरों की अनुमति देता है।

| प्रिस्क्रिप्शन दवाओं के लिए लागत साझाकरण | प्लेटिनम | गोल्ड | सिल्वर | कांस्य |
|--|----------|-------|--------|--------|
| सामान्य | \$10 | \$10 | \$10 | \$10 |
| पसंदीदा ब्रांड | \$30 | \$35 | \$35 | \$35 |
| गैर-वरीय ब्रांड | \$60 | \$70 | \$70 | \$70 |